



# Punjab Government Gazette

## EXTRAORDINARY

*Published by Authority*

---

CHANDIGARH, WEDNESDAY, MAY 24, 2023 (JYAISTHA 3, 1945 SAKA)

---

### ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan,  
Ashoka Road,  
New Delhi – 110001

No.56/2023/PPS-II (FS)

Dated : 15<sup>th</sup> May, 2023  
25 Vaisakha, 1945 (Saka)

### NOTIFICATION

WHEREAS, the Election Commission of India has decided to update its Notification No.56/2019/PPS-III, dated 23<sup>rd</sup> September, 2021, as amended from time to time, specifying the names of recognized National and State Parties and the list of free symbols, issued in pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968;

NOW, THEREFORE, in pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, and in supersession of its aforesaid notification No.56/2019/PPS-III, dated 23<sup>rd</sup> September, 2021, as amended from time to time, published in the Gazette of India, Extra-Ordinary, Part-II, Section-3, Sub-Section (iii), the Election Commission of India hereby specifies the list of free symbols as per the table appended below:-

TABLE-III  
LIST OF FREE SYMBOLS

1.	Air Conditioner
2.	Almirah
3.	Apple <i>(In all States and Union Territories except in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, Puducherry, Tamil Nadu, Kerala &amp; Karnataka)</i>
4.	Auto- Rickshaw <i>(In all States and Union Territories except in the States of Andhra Pradesh and Telangana)</i>
5.	Baby Walker
6.	Balloon
7.	Bangles
8.	Basket containing Fruits <i>(In all States and Union Territories except in the State of Tamil Nadu)</i>
9.	Bat
10.	Batsman
11.	Battery Torch
12.	Bead Necklace
13.	Belt
14.	Bench
15.	Bicycle Pump
16.	Binoculars
17.	Biscuit
18.	Black Board
19.	Boat with Man and Sail
20.	Box
21.	Bread
22.	Bread Toaster
23.	Bricks
24.	Brief Case
25.	Brush
26.	Bucket
27.	Cake
28.	Calculator
29.	Camera
30.	Can
31.	Capsicum
32.	Carpet
33.	Carrom Board
34.	Cauliflower
35.	CCTV Camera
36.	Chain



37.	Chakki
38.	Chapati Roller
39.	Chappals
40.	Chess Board
41.	Chimney
42.	Clip
43.	Coat
44.	Coconut Farm
45.	Colour Tray & Brush
46.	Computer
47.	Computer Mouse
48.	Cot <i>(In all States and Union Territories except in the State of Kerala)</i>
49.	Crane
50.	Cube
51.	Cutting Pliers
52.	Diamond
53.	Diesel Pump
54.	Dish Antenna
55.	Dolli
56.	Door Bell
57.	Door Handle <i>(In all States and Union Territories except in the States of Uttar Pradesh and Uttarakhand)</i>
58.	Drill Machine
59.	Dumbbells
60.	Dustbin
61.	Ear Rings <i>(In all States and Union Territories except in the States of Tamil Nadu, Puducherry, Kerala and Karnataka)</i>
62.	Electric Pole
63.	Envelope
64.	Extension Board
65.	Flute
66.	Football <i>(In all States and Union Territories except in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura)"</i>
67.	Football Player
68.	Fountain
69.	Frock
70.	Frying Pan
71.	Funnel
72.	Ganna Kisan
73.	Gas Cylinder
74.	Gas Stove
75.	Gift Pack
76.	Ginger

77.	Glass Tumbler
78.	Gramophone
79.	Grapes
80.	Green Chilli
81.	Hand Cart
82.	Harmonium
83.	Hat <i>(In all States and Union Territories except in the States of Andhra Pradesh and Telangana)</i>
84.	Head Phone
85.	Helmet
86.	Hockey and Ball
87.	Hour Glass
88.	Ice Cream <i>(In all States and Union Territories except in the State of Tamil Nadu)</i>
89.	Immersion Rod
90.	Iron <i>(In all States and Union Territories except in the States of Andhra Pradesh &amp; Telangana)</i>
91.	Jackfruit
92.	Kettle <i>(In all States and Union Territories except in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and West Bengal)</i>
93.	Kitchen Sink
94.	Lady Finger
95.	Lady Purse <i>(In all States and Union Territories except in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and West Bengal)"</i>
96.	Laptop
97.	Latch
98.	Letter Box
99.	Lighter
100.	Ludo
101.	Lunch Box
102.	Man Blowing Turha
103.	Matchbox
104.	Mike
105.	Mixee
106.	Nagrik
107.	Nail Cutter
108.	Neck Tie
109.	Noodles Bowl
110.	Pan
111.	Pants
112.	Peanuts
113.	Pears <i>(Except in Tamil Nadu and Pudducherry)</i>
114.	Peas
115.	Pen Drive



116.	Pen Nib with Seven Rays
117.	Pen Stand
118.	Pencil Box
119.	Pencil Sharpener
120.	Pendulum
121.	Pestle and Mortar
122.	Petrol Pump
123.	Phone Charger
124.	Pillow
125.	Plastering Trowel
126.	Plate Containing Food
127.	Plate Stand
128.	Pot
129.	Pressure Cooker
130.	Punching Machine
131.	Razor
132.	Refrigerator
133.	Ring
134.	Road Roller
135.	Robot
136.	Room Cooler
137.	Room Heater
138.	Rubber Stamp
139.	Safety Pin
140.	Saw <i>(In all States and Union Territories except in the State of Kerala)</i>
141.	School Bag
142.	Scissors
143.	Sewing Machine
144.	Ship
145.	Shoe
146.	Shutter
147.	Sitar
148.	Skiping Rope
149.	Slate
150.	Soap Dish
151.	Socks
152.	Sofa
153.	Spanner <i>(In all States and Union Territories except in the States of Bihar and Jharkhand)</i>
154.	Stapler
155.	Stethoscope
156.	Stool
157.	Stumps
158.	Swing

159.	Switchboard
160.	Syringe
161.	T.V. Remote
162.	Table
163.	Tea Filter
164.	Telephone
165.	Television
166.	Tennis Racket & Ball
167.	Tent
168.	Throwing a Javelin
169.	Tiller
170.	Toffees
171.	Tongs <i>(In all States and Union Territories except in the States of Bihar and Jharkhand)</i>
172.	Tooth Brush
173.	Tooth Paste
174.	Tray
175.	Triangle
176.	Truck <i>(In all States and Union Territories except in the States of Andhra Pradesh &amp; Telangana)</i>
177.	Trumpet
178.	Tube light
179.	Typewriter
180.	Tyres
181.	Vacuum Cleaner
182.	Violin
183.	Walking Stick
184.	Wall Hook
185.	Wallet
186.	Walnut
187.	Water Melon
188.	Water Tank
189.	Well
190.	Wheel Barrow
191.	Whistle
192.	Window
193.	Wool and Needle

(JAYDEB LAHIRI)  
SECRETARY  
ELECTION COMMISSION OF INDIA

## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,  
अशोक रोड,  
नई दिल्ली-110001

सं. 56/2023/पीपीएस-II (एफएस)

दिनांक: 15 मई, 2023  
25 वैशाख, 1945 (शक)

### अधिसूचना

यतः, भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी अधिसूचना सं. 56/2019/पीपीएस-III, दिनांक 23 सितंबर, 2021, समय-समय पर यथा-संशोधित, जिसमें निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैराग्राफ 17 के अनुसरण में निर्गत मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय दलों के नाम एवं मुक्त प्रतीकों की सूची विनिर्दिष्ट की गई है, को अद्यतनीकृत करने का निर्णय लिया है;

अतः, अब, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैराग्राफ 17 के अनुसरण में और भारत के राजपत्र के असाधारण अंक, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (iii) में प्रकाशित अपनी पूर्वोक्त अधिसूचना सं. 56/2019/पीपीएस-III, दिनांक 23 सितंबर, 2021, समय-समय पर यथा-संशोधित, के अधिक्रमण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा नीचे संलग्न सारणी के अनुसार मुक्त प्रतीकों की सूची विनिर्दिष्ट करता है:-



## (मुक्त प्रतीकों की सूची)

1.	एअरकंडीस्नर
2.	अलमारी
3.	सेब (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
4.	ऑटो-रिक्शा (आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
5.	बेबी वाँकर
6.	गुब्बारा
7.	चूड़ियाँ
8.	फलों से युक्त टोकरी (तमिलनाडु राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
9.	बल्ला
10.	बल्लेबाज
11.	बैटरी टार्च
12.	मोतियों का हार
13.	बेल्ट
14.	बेन्च
15.	साइकिल पम्प
16.	दूरबीन
17.	बिस्कुट
18.	ब्लैक बोर्ड
19.	आदमी व पाल युक्त नौका
20.	बक्सा
21.	डबल रोटी
22.	ब्रेड टोस्टर
23.	ईटें
24.	ब्रीफकेस
25.	ब्रुश
26.	बाल्टी
27.	केक
28.	कैल्कूलेटर
29.	कैमरा
30.	कैन
31.	शिमला मिर्च
32.	कार्पेट
33.	कैरम बोर्ड
34.	फूलगोभी
35.	सीसीटीवी कैमरा
36.	जंजीर
37.	चक्की



38.	चपाती रोलर
39.	चप्पलें
40.	शतरंज बोर्ड
41.	चिमनी
42.	चिमटी
43.	कोट
44.	नारियल फार्म
45.	कलर ट्रे और ब्रुश
46.	कम्प्यूटर
47.	कम्प्यूटर माउस
48.	चारपाई (केरल राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
49.	क्रेन
50.	घन
51.	कर्टिंग प्लायर
52.	हीरा
53.	डीजल पम्प
54.	डिश एंटीना
55.	डोली
56.	द्वार घंटी
57.	दरवाजे का हैंडल (उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
58.	ड्रिल मशीन
59.	डम्बल्स
60.	कूड़ादान
61.	कान की बालियाँ (तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल एवं कर्नाटक राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
62.	बिजली का खंभा
63.	लिफाफा
64.	एक्सटेंशन बोर्ड
65.	बाँसुरी
66.	फुटबॉल (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
67.	फुटबॉल खिलाड़ी
68.	फव्वारा
69.	फ्राक
70.	फ्राइंग पैन
71.	कीप
72.	गन्ना किसान
73.	गैस सिलेण्डर
74.	गैस का चूल्हा
75.	उपहार
76.	अदरक
77.	काँच का गिलास


78.	ग्रामोफोन
79.	अंगूर
80.	हरी मिर्च
81.	हाथ गाड़ी
82.	हारमोनियम
83.	टोप (आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
84.	हेडफोन
85.	हेलमेट
86.	हॉकी और बॉल
87.	रेत घड़ी
88.	आइस क्रीम (तमिल नाडु राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
89.	पानी गरम करने की रॉड
90.	प्रेस (आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
91.	कटहल
92.	केतली (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
93.	किचन सिंक
94.	भिंडी
95.	लेडी पर्स (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
96.	लैपटॉप
97.	कुन्डी
98.	लेटर बाक्स
99.	लाइटर
100.	लूडो
101.	लन्च बॉक्स
102.	तुरहा बजाता आदमी
103.	माचिस की डिब्बी
104.	माईक
105.	मिक्सी
106.	नागरिक
107.	नेल कटर
108.	गले की टाई
109.	नूडल्स कटोरा
110.	कड़ाही
111.	पैट
112.	मूँगफली
113.	नाशपाती (तमिल नाडु व पुदुचेरी को छोड़कर)
114.	मटर
115.	पेन ड्राइव
116.	कलम की निब सात किरणों के साथ



117.	पैन-स्टैण्ड
118.	पेन्सिल डिब्बा
119.	पेन्सील शार्पनर
120.	पेन्डुलम
121.	मूसल और खरल
122.	पेट्रोल पम्प
123.	फोन चार्जर
124.	तकिया
125.	करनी
126.	खाने से भरी थाली
127.	प्लेट स्टैण्ड
128.	हान्डी
129.	प्रेसर कुकर
130.	पंचिंग मशीन
131.	रेजर
132.	रेफ्रिजरेटर
133.	अंगूठी
134.	रोड रोलर
135.	रोबोट
136.	रूम कूलर
137.	रूम हीटर
138.	रबड़ की मुहर
139.	सेफ्टी पिन
140.	आरी (केरल राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
141.	स्कूल का बस्ता
142.	कैंची
143.	सिलाई की मशीन
144.	पानी का जहाज
145.	जूता
146.	शटर
147.	सितार
148.	कूदने की रस्सी
149.	स्लेट
150.	साबुनदानी
151.	जुराबें
152.	सोफा
153.	स्पैनर (बिहार एवं झारखण्ड राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
154.	स्टैपलर
155.	स्टैथोस्कोप
156.	स्टूल
157.	स्टम्प्स
158.	झूला
159.	स्विच बोर्ड

160.	सिरिन्ज
161.	टी.वी.रिमोट
162.	मेज
163.	चाय छलनी
164.	टेलीफोन
165.	टेलीविजन
166.	टेनिस बल्ला व गेंद
167.	टैन्ट
168.	भाला फेंक
169.	टीलर
170.	टॉफियाँ
171.	चिमटा (बिहार एवं झारखण्ड राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
172.	दांत ब्रुश
173.	टूथपेस्ट
174.	ट्रे
175.	त्रिभुज
176.	ट्रक (आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
177.	तुरही
178.	ट्यूब लाइट
179.	टाईपमशीन
180.	टायर
181.	वैक्यूम क्लीनर
182.	वायलिन
183.	छड़ी
184.	दीवार खूंटी
185.	बटुआ
186.	अखरोट
187.	तरबूज
188.	पानी का टैंक
189.	कुआँ
190.	हाथ रेहड़ी
191.	सीटी
192.	खिड़की
193.	ऊन व सिलाई

आदेश से,

  
 (जयदेव लाहिड़ी)  
 सचिव  
 भारत निर्वाचन आयोग